



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 245]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 23, 1982/भाद्र 1, 1904

No. 245]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 23, 1982/BHADRA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1982

सं० 197/82-सीमाशुल्क

2 यह अधिसूचना 31 अगस्त, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रवृत्त रहेगी।

[फॉर्म सं० 355/179/81-सीमाशुल्क-1]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd August, 1982

NO. 197/82-CUSTOMS

सं० 533(ए).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रबल शक्तियाँ का प्रयोग करने हुए, अपना यह समाधान हा ज्ञान पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, डाइ-आइसो-ब्यूटिलीन को जब उसका आक्सा-ऐल्कोहॉल के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उम पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उक्त भाग में छूट देती है जिसका मूल्य के 45 प्रतिशत में अधिक है।

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में और राजी का बंधपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आशुद्ध करता है कि वह डाइ-आइसो-ब्यूटिलीन की ऐसी मात्रा पर जिसकी आवश्यक सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं किया गया है कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है माग किए जाने पर उक्त राकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के त दिये जाने की दशा में उम पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात करने समय पहल ही मर्दान शुल्क के अन्तर के बराबर है।

G.S.R. 533(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Di-iso-butylene, when imported into India for the manufacture of Oxo-alcohol, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Scheme to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of 45 per cent ad valorem :

Provided that the importer, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of Di-iso-butylene as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of August, 1983.

NO. 198/82-CUSTOMS

[F. No. 355/179/81-Cus. I]

सं० 198/82-सीमाशुल्क

सां०सां० 534 (अ):—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 55 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 136-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 213 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पर्याप्त निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात्:—

"213. सं० 197 सीमाशुल्क, तारीख 23 अगस्त, 1982"

[सां०सं० 355/179/81-सीमाशुल्क-I]

ए०के० छाबड़ा, उप सचिव

G.S.R. 534(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136-Customs, dated the 11th May, 1982, namely:—

In the Schedule to the said notification, after Serial number 212 and the entries relating thereto, the following Serial number and entries shall be inserted, namely:—

"213. No. 197-Customs, dated the 23rd August, 1982".

[F. No. 355/179/81-Cus.-I]

A. K. CHHABRA, Dy. Secy.